



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 28 सितम्बर, 2021

आश्विन 6, 1943 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
निर्वाचन अनुभाग

संख्या 637/61-2021

लखनऊ, 28 सितम्बर, 2021

शुद्धि -पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार के राजपत्र दिनांक 27 सितम्बर, 2021 में प्रकाशित निर्वाचन अनुभाग की अधिसूचना संख्या 633/61/2021, दिनांक 27 सितम्बर, 2021 के अंग्रेजी रूपान्तरण के पैरा-1 के क्रमांक 3 पर Shri Virendra Prasad के स्थान पर Shri Virendra Singh पढ़ा जाए।

आज्ञा से,
अजय कुमार शुक्ला,
सचिव।

CORRIGENDUM

In English version of Nirvachan Anubhag Notification no. 633/61/2021, dated 27th September 2021, published in the Uttar Pradesh Government *Gazette* on 27th September, 2021, in Para-1 of Serial no. 3, read Shri Virendra Singh in place of Shri Virendra Prasad.

By order,
AJAY KUMAR SHUKLA,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 336 राजपत्र-2021-(715)-588 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 26 सा० निर्वाचन-2021-(716)-100 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।